

अन्य राज्य सेवा अधिकारियों के लिए प्रपत्र-II (संदर्भ नियम-7)

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (वर्ष ..... ) भाग - I (प्रतिवेदित) (REPORTEE) अधिकारी के लिए

सेवा का नाम .....

1. नाम .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....
2. जन्म तिथि ..... गृह जिला .....
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान पद तथा स्थान .....
4. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
5. अवकाश/प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
6. मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों (कृपया विनिर्दिष्ट करें) के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन :-

क्र. सं.	मुख्य पारिणामिक कार्य (Key result areas)	निर्धारित लक्ष्य (Targets)	वास्तविक उपलब्धियाँ (Actual Achievements)	उपलब्धियों में कमी के कारण (कोई हो तो) एवं विशेष योगदान
----------	---	-------------------------------	--	--

1. प्रमुख विभागीय कार्यों के भौतिक लक्ष्य
  - (i) .....
  - (ii) .....
  - (iii) .....
  - (iv) .....
2. प्रमुख विभागीय कार्यों के वित्तीय लक्ष्य
  - (i) .....
  - (ii) .....
  - (iii) .....
  - (iv) .....
3. निरीक्षण .....
4. मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में रात्रि विश्राम .....
- 4.(क) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण :- क्या आपने निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षण कराया है? हाँ / नहीं  
यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें ..... (प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा संलग्न है)
5. अन्य .....

टिप्पणी :- यदि विभागीय लक्ष्य नहीं हो तो संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण दिया जाए ।

7. प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण (150 शब्दों से अधिक न हो)-  
.....  
.....  
.....  
.....

प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत

किए जाने का दिनांक .....

प्रतिवेदित के हस्ताक्षर एवं

नाम .....

पदनाम .....

(प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा कोई उपाबन्ध संलग्न नहीं किया जाए)

भाग - II (प्रतिवेदक (REPORTING) अधिकारी के लिए )

1. प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्तियाँ : ( कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें, सही का निशान आदि नहीं )

क्र.सं.	मूल्यांकन का आधार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद
1.	कार्य परिणाम (Output of work)					
2.	नेतृत्व के गुण (Leadership qualities)					
3.	विश्लेषणात्मक योग्यता (Analytical ability)					
4.	प्रबंधन योग्यता ( Management ability)					
5.	निर्णय लेने की योग्यता (Decision making ability)					
6.	पहल करने की योग्यता ( Ability to take initiative )					

2. (क) सामान्य मूल्यांकन :- अधिकारी के व्यक्तित्व, गुणों तथा दोषों, मानसिक गुणवत्ता, परिश्रम और निष्ठा आदि का मूल्यांकन व समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारी के कार्यों का समग्र मूल्यांकन ।

2.(ख) वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के लिए लिखित सलाह/भर्त्सना (यदि कोई हो) का संक्षिप्त उल्लेख :

2.(ग) क्या आप किसी अभ्युक्ति को प्रतिकूल मानते हैं ? यदि हाँ तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण भी दें।

3. क्या प्रतिवेदित अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ नि:शक्तों/ समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के प्रति संवेदनशील है ? यदि नहीं तो कारण बताएँ।

( हाँ / नहीं )

4. क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा अथवा उसके द्वारा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ? यदि हाँ तो उसके बारे में विवरण दें।

( हाँ/नहीं )

5. बिन्दु सं. 1 व 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदित अधिकारी का समग्र मूल्यांकन (कृपया उपयुक्त खाने कॉलम में लघु हस्ताक्षर करें)

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी :- कृपया सुनिश्चित करें कि बिन्दु सं. 1 से 2 तक में की गई अभ्युक्तियों एवं बिन्दु सं. 5 में किये गये समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। बिन्दु सं. 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होने पर बिन्दु सं. 5 में तदनु रूप ही समग्र मूल्यांकन किया जाए। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जाए।

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं

समीक्षक प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का दिनांक .....

नाम .....  
पदनाम .....

**भाग -III (समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के लिए)**

1. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गई अभ्युक्तियों के बारे में सामान्य टिप्पणी व समग्र मूल्यांकन करते हुए अभ्युक्तियाँ अंकित की जाएँ। यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी से सहमत नहीं हो तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्रतिवेदित अधिकारी का समग्र मूल्यांकन (कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें)

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

**टिप्पणी :-** कृपया सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त विवरणात्मक अभ्युक्तियों एवं समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। विवरणात्मक अभ्युक्तियों में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति होने पर ही समग्र मूल्यांकन को असंतोषप्रद किया जाए।

स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत

समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर

किए जाने का दिनांक .....

नाम .....

पदनाम .....

**भाग -IV (स्वीकारकर्ता (ACCEPTING) प्राधिकारी के लिए)**

1. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की अभ्युक्तियाँ। यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी से सहमत नहीं हो तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण दें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वीकारकर्ता (ACCEPTING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम .....

दिनांक .....

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र - I, II तथा III का परिशिष्ट (प्रपत्र का पृ. 4)

वर्ष ..... (1 जनवरी ..... को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कार्मिक का नाम तथा ..... 3. किस सेवा संवर्ग से है .....
2. वर्तमान में धारित पद ..... पद जिससे वह संबंधित है । ..... 4. वर्तमान वेतन .....

उप जिला, उप-खण्ड, तहसील तथा गाँव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमि अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएँ कि वह किसके नाम में धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है।	कैसे अर्जित की। यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकारी दान या अन्य रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है।	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ( वर्ष )

भाग - I ( प्रतिवेदित ( REPORTEE ) अधिकारी / कार्मिक के लिए )

सेवा का नाम : .....

1. नाम .....
2. जन्म तिथि ..... पुरु/पुत्री/ पत्नी श्री .....
3. समीक्षार्थी अवधि के दौरान पद तथा स्थान ..... ग्रह जिला .....
4. प्रतिवेदक अधिकारी के अधीन की गई सेवा अवधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
5. अवकाश प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति की कालावधि दिनांक ..... से दिनांक ..... तक
6. मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों ( ) कृपया विनिर्दिष्ट करें के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन

क. सं. मुख्य पारिणामिक कार्य निर्धारित लक्ष्य वास्तविक उपलब्धियाँ उपलब्धियों में कमी के कारण (कोई हो) एवं विशेष योगदान

(Key result areas) (Targets) (Actual achievements) हो) एवं विशेष योगदान

1. प्रमुख विभागीय कार्यों के श्रेष्ठिक लक्ष्य
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
  - (iv)
2. प्रमुख विभागीय कार्यों के विलोय लक्ष्य
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
  - (iv)
3. निरीक्षण
4. मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र में राष्ट्र विभ्राम
5. अन्य

टिप्पणी - यदि विभागीय लक्ष्य नहीं हो तो संक्षिप्त वर्णनात्मक विवरण दिया जाए।

प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण (150 शब्दों से अधिक न हो)

प्रतिवेदित के हस्ताक्षर  
नाम व पदनाम

प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने का दिनांक

(प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक द्वारा कोई उपलब्ध संलग्न नहीं किया जाए)

भाग - II ( प्रतिवेदित ( REPORTING ) अधिकारी / कार्मिक के लिए )

1. प्रतिवेदक अधिकारी को अन्याक्तियाँ ( कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें सही का निशान आदि नहीं )

क्र.सं.	मूल्यांकन का आधार	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद
1.	कार्य परिणाम (Work performance)					
2.	बुद्धिमत्ता (Intelligence)					
3.	अनुशासन जिसमें समयपालन सम्मिलित है (Discipline including punctuality)					
4.	कर्तव्य परायणता (Devotion to duty)					
5.	कार्य निषादन में तत्परता (Prornptness in disposal)					
6.	पहल करने की योग्यता (Ability to take initiative)					

2 ( क ) सामान्य मूल्यांकन अधिकारी के व्यक्तित्व, गुणों तथा दोषों, मानसिक परिश्रम, गुणवत्ता और निष्ठा आदि का मूल्यांकन व समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिकारी के कार्यों का समग्र मूल्यांकन।

2 ( ख ) वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के लिए लिखित सलाह/ भर्त्सना ( यदि कोई हो ) का संक्षिप्त उल्लेख :

2 ( ग ) क्या आप किसी अभ्युक्ति को प्रतिकूल मानते हैं ? यदि हाँ तो उसके लिए संक्षिप्त, किन्तु ठोस कारण भी दें।

3. क्या प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति / समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के प्रति संवेदनशील है ? यदि नहीं तो कारण बतायें। हाँ/नहीं

4. क्या आपकी जानकारी में ऐसी कोई बात आई है जो अधिकारी/कार्मिक की सत्यनिष्ठा अथवा उसके द्वारा कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ? यदि हाँ तो उसके बारे में विवरण दें। हाँ/नहीं

5. कॉलम सं. 1 व 2 में दी गई टिप्पणी के आधार पर प्रतिवेदित अधिकारी/कार्मिक का समग्र मूल्यांकन ( कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें )

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी :- कृपया सुनिश्चित करें कि बिन्दु सं. 1 से 2 तक में की गई अभ्युक्तियों एवं बिन्दु सं. 5 में किये गये समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो। बिन्दु सं. 1 से 2 तक में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होने पर बिन्दु सं. 5 में तद्रूप ही समग्र मूल्यांकन किया जाए। यदि कहीं पर भी कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति हो तो समग्र मूल्यांकन भी असंतोषप्रद ही किया जाए।

प्रतिवेदक अधिकारी के हस्ताक्षर  
( नाम, पदनाम स्पष्ट अक्षरों में )

समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का दिनांक

भाग - III (समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के लिए)

1. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा की गई अभ्युक्तियों के बारे में सामान्य टिप्पणी व समग्र मूल्यांकन करते हुए अभ्युक्तियों प्रतिवेदक अधिकारी से सहमत नहीं हों तो उसके लिए संक्षिप्त किन्तु ठोस कारण दें।  
(टिप्पणी निजी सहायकों / वैयक्तिक सचिवों के लिए यह भाग लागू नहीं होगा)

प्रतिवेदित अधिकारी/ कार्मिक का समग्र मूल्यांकन (कृपया उपयुक्त खाने में लघु हस्ताक्षर करें)

उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषप्रद	असंतोषप्रद

टिप्पणी :- कृपया सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त विवरणात्मक अभ्युक्तियों एवं समग्र मूल्यांकन में एक रूपता हो।  
विवरणात्मक अभ्युक्तियों में कहीं पर भी प्रतिकूल अभ्युक्ति होने पर ही समग्र मूल्यांकन को असंतोषप्रद किया जाए।

समीक्षक (REVIEWING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
(नाम एवं पदनाम स्पष्ट अक्षरों में)

स्वीकारकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने का दिनांक

भाग-IV (स्वीकारकर्ता ACCEPTING) प्राधिकारी के लिए)

2. स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की अभ्युक्तियाँ। यदि आप प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी से सहमत नहीं हों तो उसके लिए संक्षिप्त किन्तु ठोस कारण दें।

दिनांक

स्वीकारकर्ता (ACCEPTING) प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
(नाम एवं पदनाम स्पष्ट अक्षरों में)

वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र - 1, 11 तथा 111 का परिशिष्ट (प्रपत्र का पृ. 4)

वर्ष ..... (1 जनवरी ..... को) के लिये/ प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/ कार्मिक का नाम तथा ..... पद जिससे यह संबंधित है : 3. किस सेवा संवर्ग से है .....

2. वर्तमान में धारित पद ..... 4. वर्तमान वेतन .....

उस जिले उप-खण्ड	सम्पतियों का नाम तथा विवरण	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नहीं है तो बताएं कि वह किसके नाम में धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है।	कैसे अर्जित की। यदि क्रय वृद्धे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है।	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति
तहसील तथा गाँव का नाम	आवासीय तथा भूमि अन्य भवन					
जिसमें सम्पत्ति स्थित है						

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....



**SELF APPRAISAL PROFORMA**

(To be filled by each Faculty Members)

NAME OF THE OFFICE :-

1. Name : .....
2. Designation : .....
3. Year and date : .....
4. Academic qualification : .....

	Board/University	Year	Div.
1) Matriculation/ Secondary			
2) Higher Sec. P.U.C.			
3) Bachelor's Degree			
4) Master's Degree			
5) academic qualification			

5. Total Teaching experience (in Government service)

S.No.	Name of the Institution	Date of Joining	Date of Leaving	Experience of teaching		Remarks
				P.G.	U.G.	
1						
2						
3						
4						
5						

6. Teaching proforma during the session

2. (a) Classes taken (Theory & Practical) & papers taught

Name of Class & Section (if any)	Subject/paper taught	No. of periods/ week Session	Total No. of lectures delivering during the session

(b) Mention any teaching aids if uses

(c) Tutorials/seminars/field work demonstration etc.

(d) Sessional work tests etc given and examined